



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 19.04.2021

#दिनांक 19-04-2021 को पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस और पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदय के आदेश के क्रम में अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय महोदय के निर्देशन में कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिये जनपद के 48 स्थानों पर कराया गया सैनिटाइज

जनपद गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न भागों में फायर सर्विस की 11 गाड़ियां सैनिटाइजेशन करने के लिए सड़कों पर उतरी। इन गाड़ियों द्वारा सैनिटाइजेशन करते हुए कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने का किया गया प्रयास

गौतम बुद्ध नगर की अग्रिशमन शाखा ने सैनिटाइजेशन हेतु विशेष अभियान चलाते हुए 11 गाड़ियों द्वारा जनपद में 48 स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया



#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने , दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू/रविवार के दिन लागू लॉकडाउन के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 19.04.2021 को 482 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 53,450 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिसमे 03 व्यक्तियों पर संशोधित 1000 रुपये की दर से चालान किया गया।

1016 वाहनों का चालान करते हुए कुल 71000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 05 वाहनों को सीज भी किया गया।

52 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 13 अभियोग पंजीकृत किये गये।